



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2017/आषाढ़ 28, 1939

No. 643]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2017/ASADHA 28, 1939

xg ea=ky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

l k-dk-fu- 935%v½—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक अनुसचिवीय कॉडर) समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक अनुसचिवीय कॉडर) समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक अनुसचिवीय कॉडर) समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 में:-

(क) नियम 3 में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्दों के लिए दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची में-

- सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात्:

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-10 (रु. 56100-177500/-);

(आ) स्तंभ 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ 7 से 14 को क्रमशः

6 से 13 के तौर पर पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

- (इ) स्तंभ (11) जो पुनः क्रमांकित है, “प्रोन्नति” शीर्ष के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
- (ii) निरीक्षक (अनुसचिवीय) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने;
- (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,
- अर्थात्:

“स्तर-7 (रु. 44900—142400 /—);

(आ) स्तंभ (11) में जो पुनः क्रमांकित है, “प्रोन्नति” शीर्ष के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

- (iii) उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने:—
- (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,
- अर्थात्:

“स्तर-6 (रु. 35400—112400 /—);

(आ) स्तंभ (11) में जो पुनः क्रमांकित है, “प्रोन्नति” शीर्ष के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

- (iv) सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने;
- (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,
- अर्थात्:

“स्तर-5 (रु. 29200—92300 /—);

(आ) स्तंभ (11), जो पुनः क्रमांकित में है,—

- (i) “प्रोन्नति” शीर्ष के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
- (ii) “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अधीन,

- (i) मद (ii) में शब्दों एवं अंकों पी बी-1 (रु. 5200—20200) और ग्रेड वेतन रु. 2400 के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500 — 81100 /—)” शब्द एवं अंक रखे जाएंगे;

- (ii) टिप्पण-3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 17 / 132 / 2016—कार्मिक / सीसुबल]

विनोद कुमार, अवर सचिव (कार्मिक-III)

ivli.k % मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57 तारीख 05 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2017

G.S.R. 935(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force (Combatised Ministerial Cadre), Group ‘A’, Group ‘B’ and Group ‘C’ posts Recruitment Rules, 2011, namely:—

- (1) These rules may be called the Border Security Force, (Combatised Ministerial Cadre), Group ‘A’, Group ‘B’ and Group ‘C’ Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force Combatised Ministerial Cadre, Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2011,—

(a) in rule 3, for the words “ Pay Band and Grade Pay/Pay Scale” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(b) in the Schedule,—

(i) against serial number 1 relating to the post of Assistant Commandant (Ministerial),—

(A) for column (4) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“Level in the pay matrix
(4)
Level-10 (Rs. 56100-177500);

(B) column 6 and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 7 to 14 shall be renumbered as columns 6 to 13 respectively;

(C) in column (11) as so renumbered, under heading “Promotion”, Note 2 shall be omitted;

(ii) against serial number 2, relating to the post of Inspector (Ministerial) ,—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level – 7 (Rs.44900-142400)”;

(B) in column (11) as so renumbered, under heading “Promotion”, Note 2 shall be omitted ;

(iii) against serial number 3 relating to the post of Sub-Inspector (Ministerial),—

(A) for the entries under column 4, the following entries shall be substituted, namely:—

“Level – 6 (Rs. 35400-112400)”;

(B) in column (11) as so renumbered, under heading “Promotion”, Note 2 shall be omitted;

(iv) against serial number 4 relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Ministerial),—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level – 5 (Rs. 29200-92300)”;

(B) in column (11), as so renumbered,—

(I) under heading “Promotion”, Note 2 shall be omitted;

(II) under heading “Deputation”,—

(i) in item (ii), for the words and figures “PB-1/Rs.5200-20200 and Grade Pay Rs. 2400/-”, the words and figures “Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-)” shall be substituted;

(ii) Note-3 shall be omitted.

[F. No. 17/132/2016/Pers/BSF]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 57, dated the 5th February, 2011.